



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1407]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2007/कार्तिक 23, 1929

No. 1407]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2007/KARTIKA 23, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2007

का.आ. 1936(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के 533.370 कि.मी. से 551.000 कि.मी. तक के भूखंड का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उक्त भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि के उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, तीस्ता बैराज परियोजना, रवीन्द्र नगर मोड़, रवीन्द्र सरानी, सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग-734406 को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिमी बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ३१ के ५३३.३७० कि. मी. से ५५१.००० कि. मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/उप मण्डल का नाम	मौजा/ गाँव का नाम	अधिकारिता सूची संख्या	सर्वेक्षण/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का भाग	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	दार्जिलिंग	सिलीगुड़ी	(1) बुधारुगाँव	106	3623(भाग)	पश्चिमी	निजी	घनहर	0.13354
					3624(भाग)	पश्चिमी	निजी	घनहर	0.14569
					3627(भाग)	पश्चिमी	निजी	घनहर	0.00405
					3677(भाग)	पश्चिमी	निजी	घनहर	0.04452
			(2) बाणपाईकपास	102	1940(भाग)	पूर्वी	निजी	घनहर	0.01214
					1941(भाग)	पूर्वी	निजी	घनहर	0.03643
					1942(भाग)	उत्तर पूर्वी	निजी	घनहर	0.01214
					2116(भाग)	दक्षिण पूर्वी	निजी	बारसु	0.04848
					2117(भाग)	पूर्वी	निजी	खेवा	0.00809
					2118(भाग)	पूर्वी	निजी	भिट	0.02429
					2119(भाग)	पूर्वी	निजी	भिट	0.01214
					2121(भाग)	पूर्वी	निजी	घनहर	0.01214
					2142(भाग)	उत्तर पूर्वी	निजी	घनहर	0.04080
					2155(भाग)	उत्तर पूर्वी	निजी	बारसु	0.04453
					2605(भाग)	पूर्वी	निजी	बारसु	0.05668
					2606(भाग)	पूर्वी	निजी	बारसु	0.01619
					2609(भाग)	पूर्वी	निजी	भिट	0.04858
			(3) गान्धिलाल	101	5316(भाग)	उत्तरी	सरकारी	भिट	0.05263
					5331(भाग)	उत्तरी	सरकारी	बारसु	0.05238

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					5342(भाग)	उत्तरी	सरकारी	बास्तु	0.01214
					5343/5337/ 5340/5341 (भाग)	उत्तरी	सरकारी	बास्तु	0.07287
			(4) पूर्व मदती	108	80(भाग)	उत्तरी	सरकारी	पुराना पतित	0.11331
					81(भाग)	उत्तरी	सरकारी	भिट	0.12950
					82(भाग)	उत्तरी	सरकारी	भिट	0.08093
					83(भाग)	उत्तरी	सरकारी	भिट	0.14569
					97(भाग)	उत्तरी	सरकारी	धनहर	0.17402
					2/208(भाग)	उत्तरी	सरकारी	भिट	0.05666
					336(भाग)	पश्चिमी	सरकारी	चाय बगान	0.42897
					341(भाग)	पश्चिमी	सरकारी	चाय बगान	0.05261
					342(भाग)	पूर्वी	सरकारी	सड़क	0.00809
					343(भाग)	पश्चिमी	सरकारी	चाय बगान	0.15378
					2301(भाग)	पश्चिमी	सरकारी	चाय बगान	0.06070
			(5) पश्चिम मदती	100	3763(भाग)	उत्तरी	निजी	धनहर	0.05261
					3767(भाग)	उत्तरी	निजी	धनहर	0.00404
					3768(भाग)	उत्तरी	निजी	धनहर	0.00809
					3906(भाग)	उत्तरी	निजी	धनहर	0.06879
					3908(भाग)	उत्तरी	निजी	धनहर	0.00404
			(6) अम्बारी (मौजा अम्बारी)	40	174(भाग)	पश्चिमी	निजी	रूपनी	0.01214
					355(भाग)	पश्चिमी	निजी	बास्तु	0.13759
					357(भाग)	पश्चिमी	निजी	बास्तु	0.02428
					360(भाग)	पश्चिमी	निजी	बास्तु	0.13759

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					211/380 (भाग)	पश्चिमी	निजी	डांगा	0.06475
					151/383 (भाग)	पश्चिमी	निजी	रूपनी	0.07689
					364/385 (भाग)	पश्चिमी	निजी	रूपनी	0.03237
					355/390 (भाग)	पश्चिमी	निजी	बास्तु	0.02832
					355/397 (भाग)	पश्चिमी	निजी	बास्तु	0.01214
			(7) ठाकुरगंज	45	152(भाग)	पूर्वी	सरकारी	चाय बगान	0.01618
					157(भाग)	पूर्वी	सरकारी	चाय बगान	0.10522
					159(भाग)	पूर्वी	सरकारी	चाय बगान	0.04451
					160(भाग)	पूर्वी	सरकारी	चाय बगान	0.00404
					152/206 (भाग)	पश्चिमी	सरकारी	चाय बगान	0.01618
					157/208 (भाग)	पूर्वी	सरकारी	चाय बगान	0.11736
					160/209 (भाग)	पूर्वी	सरकारी	चाय बगान	0.00809
					159/210 (भाग)	पूर्वी	सरकारी	चाय बगान	0.01618

[फा. सं. भाराप्र/तक/फेज-III/डीपीआर/एलए/डब्ल्यू बी/2003]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2007

S.O. 1936(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for building (widening), maintenance, management and operation of National Highway No.31 on the stretch of land from km. 533.370 to km. 551.000 in Darjeeling District, in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose, under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer, Teesta Barrage Project, Rabindra Nagar More, Rabindra Sarani, Siliguri, District Darjeeling-734406, in writing, and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

4615-AB-07-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 533.370 to km. 551.000 of the National Highway No.31 in the State of West Bengal

Serial number	Name of the district	Name of the taluk/sub-division	Name of the mouza/village	Jurisdiction List number	Survey /Plot number	Portion of the plot	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Darjeeling	Siliguri	(1) Budharugaon	106	3623(Part)	Western	Private	Dhanhar	0.13354
					3624(Part)	Western	Private	Dhanhar	0.14569
					3627(Part)	Western	Private	Dhanhar	0.00405
					3677(Part)	Western	Private	Dhanhar	0.04452
			(2) Barapaik Para	102	1940 (Part)	Eastern	Private	Dhanhar	0.01214
					1941(Part)	Eastern	Private	Dhanhar	0.03643
					1942(Part)	North Eastern	Private	Dhanhar	0.01214
					2116(Part)	South Eastern	Private	Bastu	0.04848
					2117(Part)	Eastern	Private	Doba	0.00809
					2118(Part)	Eastern	Private	Vit	0.02429
					2119 (Part)	Eastern	Private	Vit	0.01214
					2121(Part)	Eastern	Private	Dhanhar	0.01214
					2142(Part)	North Eastern	Private	Dhanhar	0.04080
					2155(Part)	North Eastern	Private	Bastu	0.04453
					2605(Part)	Eastern	Private	Bastu	0.05668
					2606(Part)	Eastern	Private	Bastu	0.01619
					2609(Part)	Eastern	Private	Vit	0.04858
			(3) Mandila Jhar	101	5316(Part)	Northern	Government	Vit	0.05263
					5331(Part)	Northern	Government	Bastu	0.05238

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					5342(Part)	Northern	Government	Bastu	0.01214
					5343/5337/ 5340/5341 (Part)	Northern	Government	Bastu	0.07287
			(4) Purba Madati	108	80(Part)	Northern	Government	Purana Patit	0.11331
					81(Part)	Northern	Government	Vit	0.12950
					82(Part)	Northern	Government	Vit	0.08093
					83(Part)	Northern	Government	Vit	0.14569
					97(Part)	Northern	Government	Dhanhar	0.17402
					2/208(Part)	Northern	Government	Vit	0.05666
					336(Part)	Western	Government	Tea Garden	0.42897
					341(Part)	Western	Government	Tea Garden	0.05261
					342(Part)	Eastern	Government	Road	0.00809
					343(Part)	Western	Government	Tea Garden	0.15378
					2301(Part)	Western	Government	Tea Garden	0.06070
			(5) Paschim Madati	100	3763(Part)	Northern	Private	Dhanhar	0.05261
					3767(Part)	Northern	Private	Dhanhar	0.00404
					3768(Part)	Northern	Private	Dhanhar	0.00809
					3906(Part)	Northern	Private	Dhanhar	0.06879
					3908(Part)	Northern	Private	Dhanhar	0.00404
			(6) Ambari (Mouza Ambari)	40	174(Part)	Western	Private	Rupni	0.01214
					355(Part)	Western	Private	Bastu	0.13759
					357(Part)	Western	Private	Bastu	0.02428
					360(Part)	Western	Private	Bastu	0.13759

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					211/380 (Part)	Western	Private	Danga	0.06475
					151/383 (Part)	Western	Private	Rupni	0.07689
					364/385 (Part)	Western	Private	Rupni	0.03237
					355/390 (Part)	Western	Private	Bastu	0.02832
					355/397 (Part)	Western	Private	Bastu	0.01214
			(7)	45	152(Part)	Eastern	Government	Tea Garden	0.01618
			Thakurganj		157(Part)	Eastern	Government	Tea Garden	0.10522
					159(Part)	Eastern	Government	Tea Garden	0.04451
					160(Part)	Eastern	Government	Tea Garden	0.00404
					152/206 (Part)	Western	Government	Tea Garden	0.01618
					157/208 (Part)	Eastern	Government	Tea Garden	0.11736
					150/209 (Part)	Eastern	Government	Tea Garden	0.00809
					159/210 (Part)	Eastern	Government	Tea Garden	0.01618

[F. No. NHA/Tech/Ph-III/DPR/LAWB/2003]

PRABHAKAR, Dy. Secy.